

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2024—वैशाख 13, शक 1946

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.